



## प्रेस नोट



जनपद-कौशाम्बी

दिनांक 06.02.2021

### राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह-2021

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के कुशल निर्देशन में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 के अन्तर्गत आज दिनांक 06.02.2021 को यातायात पुलिस कौशाम्बी व महामाया राजकीय बालिका महाविद्यालय कौशाम्बी द्वारा संयुक्त रूप से एन0एस0एस0 की छात्राओं के साथ ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पाता में एक शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें एन0एस0एस0 की छात्राओं द्वारा यातायात एवं सड़क सुरक्षा विषयों पर नुक्कड़ नाटक, गायन व अभिभाषण का प्रस्तुतीकरण किया गया। यातायात निरीक्षक रवींद्र त्रिपाठी एवं प्राचार्य डॉ हर्षवर्धन मिश्र द्वारा छात्राओं को यातायात के नियमों से जागरूक किया गया तथा सड़क पर चलते समय अनुशासन बनाए रखने तथा सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं को रोकने हेतु आवश्यक सावधानियों को बरतने के सम्बन्ध में चर्चा की गई साथ ही दुर्घटनाग्रस्त लोगों की त्वरित मदद किए जाने हेतु प्रेरित किया गया। तदुपरान्त एक भव्य रैली निकालकर भक्तन का पुरवा पाता ग्रामीण का भ्रमण कर ग्रामीण लोगों को यातायात जागरूकता एवं यातायात नियमों के अनुपालन का संदेश प्रसारित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉ अरविंद कुमार, डॉ स्वाति चौरसिया, डॉ अजय कुमार, डॉक्टर नीलम बाजपेई, डॉ रीता दयाल, डॉ निलेश कुमार सिंह, डॉ भावना केसरवानी एवं डॉ रमेश चंद्र सहित एन0एस0एस0 की 100 से अधिक छात्राएं मौजूद रहे।



## 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

**थाना कोखराज** - श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में थाना कोखराज पुलिस प्र०नि० श्री प्रदीप कुमार राय मय हमराह पुलिस बल द्वारा मु०अ०सं० 20/21 धारा 376(3डी) भा०द०वि० व ३/४ पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त ऊदल पुत्र नभन निवासी अब्दावाँ थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

## जनपद मे कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत चेकिंग के दौरान की गई कार्यवाही

जनपद मे लाकडाउन के दृष्टिगत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन के क्रम में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के निर्देशानुसार जनपद स्तर पर विभिन्न थानों द्वारा अनावश्यक रूप से बाहर घूमने/ मास्क न लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के विरुद्ध 50 बैरियर/नाकों एवं थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की गई, चेकिंग के दौरान दो-पहिया/चार पहिया वाहनों को चेक किया गया, जिनमें 160 वाहनों का eचालान किया गया एवं 11 वाहनों का चालान कर 4500 रु० सम्मन शुल्क वसूला गया\_साथ ही बिना मास्क लगाये घूमने एवं सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का उल्लघन करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये 07 व्यक्तियों से 700 रुपये जुर्माना वसूला गया।

## निरोधात्मक कार्यवाही मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी श्री अभिनन्दन के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान में साधारण मारपीट व शांति भंग करने के आरोप में ( थाना प० शरीरा से 01, थाना चरवा से 02 ) कुल 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।